

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 जनवरी 2023

### प्रश्न -1

सांसद खेल महाकुंभ का दूसरा चरण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था?

- A) बस्ती
- B) झांसी
- C) कानपुर
- D) वाराणसी

**सही उत्तर: A**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का वर्चुअल उद्घाटन किया। बस्ती जिले में 'सांसद खेल महाकुंभ' का आयोजन बस्ती से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है।

### प्रश्न-2

निम्नलिखित में से किस संगठन ने 'ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट' जारी की?

- A) AIIMS
- B) IMA
- C) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
- D) NITI आयोग

**सही उत्तर: C**

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में आवश्यक विशेषज्ञों की लगभग 80% की कमी है।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 जनवरी 2023

### प्रश्न-3

निम्नलिखित में से किसे भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था?

- A) अलकेश कुमार शर्मा
- B) पंकज कुमार सिंह
- C) अजीत धोभाल
- D) बृजेश मिश्रा

**सही उत्तर: B**

राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी और सीमा सुरक्षा बल (BSF) के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को दो साल की अवधि के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है।

### प्रश्न-4

भारत के G20 की अध्यक्षता में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी?

- A) अहमदाबाद
- B) गुवाहाटी
- C) श्रीनगर
- D) तिरुवनंतपुरम

**सही उत्तर: D**

भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक तिरुवनंतपुरम, केरल में आयोजित की गई थी। बैठक में G20 के सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 जनवरी 2023

### प्रश्न-5

इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ( IRRPL) ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में AK-203 कलाशिकोव असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू कर दिया है?

- A) गुजरात
- B) मध्य प्रदेश
- C) महाराष्ट्र
- D) उत्तर प्रदेश

**सही उत्तर: D**

रूस के रोसोबोरोनएक्सपोर्ट के महानिदेशक अलेक्जेंडर मिखीव के अनुसार , भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम , इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड (IRRPL) ने उत्तर प्रदेश के कोरवा में AK-203 कलाशिकोव असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू कर दिया है।

### प्रश्न-6

निम्नलिखित में से किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया था?

- A) हरमीत ढिल्लों
- B) कृष्णा वविलाला
- C) माया अजमेरा
- D) रोहित खन्ना

**सही उत्तर: B**

भारतीय मूल के अमेरिकी कृष्णा वविलाला को भारतीय समुदाय को अमेरिका की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में योगदान के लिए मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अश्वेतों के लिए नागरिक अधिकारों के चैंपियन श्री किंग का जन्म 15 जनवरी, 1929 को अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 जनवरी 2023

### प्रश्न-7

विश्व आर्थिक मंच ने हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का कौन सा संस्करण जारी किया है?

- A) 21
- B) 18
- C) 15
- D) 12

**सही उत्तर: B**

विश्व आर्थिक मंच (WEF) ने हाल ही में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 का 18वां संस्करण जारी किया, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 'प्राकृतिक आपदाओं और चरम मौसम की घटनाओं' के लिए दुनिया को तैयार करना है।

### प्रश्न-8

इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा था?

- A) हिमाचल प्रदेश
- B) महाराष्ट्र
- C) तमिलनाडु
- D) उत्तर प्रदेश

**सही उत्तर: D**

गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग द्वारा इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार, उत्तर प्रदेश मोबाइल गेमर्स के लिए शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है, इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल हैं।

## डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 जनवरी 2023

### प्रश्न-9

\_\_\_\_\_ ने मलेशिया ओपन सुपर 1000 महिला सिंगल्स खिताब जीता।

- A) अकाने यामागुची
- B) बाएक हाना
- C) चेन किंगचेन
- D) जिया यिफान

**सही उत्तर: A**

अकाने यामागुची ने कुआलालम्पुर में मलेशिया ओपन सुपर 1000 महिला सिंगल्स खिताब जीता। मौजूदा विश्व चैंपियन यामागुची ने दुनिया की चौथे नंबर की खिलाड़ी आन से यंग को हराकर सुपर सीरीज प्रीमियर खिताब जीता जो सात साल में उनका पहला खिताब है।

### प्रश्न-10

निम्नलिखित में से किस पाकिस्तान स्थित आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया था?

- A) अब्दुल रहमान मक्की
- B) हाफिज़ सईद
- C) मुल्ला उमर
- D) जकीउर रहमान लखवी

**सही उत्तर: A**

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। मक्की लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रमुख और 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद का साला है।